



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 219]
No. 219]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 1984/आषाढ़ 1, 1906
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 1984/ASADHA 1, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रेलवे मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नयी दिल्ली, 20 जून, 1984

मां० कां० नि० 462(अ).—रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 की अनुसूची के पैरा 2 के उप पैरा (2) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, रेल मंत्रालय, सघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी ग्रेड विभागीय प्रति-योगिता परीक्षा), विनियम, 1972 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् —

1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. (1) ये विनियम रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी ग्रेड विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) (संशोधन) विनियम, 1981 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख का प्रवृत्त होंगे।

2. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी ग्रेड विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1972 में, विनियम 1 के उपविनियम (क)

के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्राविष्टापित किया जायगा, अर्थात्:—

“(क) ‘निर्णायक तिथि’ का अर्थ है उस वर्ष की जुलाई का प्रथम दिन जिस वर्ष परीक्षा होती है।”

[सं० ई० आर० बी०-1/84/37/1]

अजय जोहरी, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं
भारत सरकार के पदेन समुक्त सचिव

पाठ टिप्पणी :—

मुख्य विनियम विनांक 21-6-72 की अधिसूचना सं० ई० आर० बी०-71/10/13 द्वारा प्रकाशित किये गये थे जो बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किये गये:—

क्रम सं०	अधिसूचना सं०	दिनांक
1	2	3
1	ईआरबी-1/71/10/13	23-11-72
2	ईआरबी-1/73/10/22	11-7-73

1	2	3
3. ईमारवी-1/71/10/13		13-8-74
4. ईमारवी-1/74/10/11		7-4-75
5. ईमारवी-1/75/10/17		21-8-76
6. ईमारवी-1/76/10/20		25-10-77
7. ईमारवी-1/78/37/2		5-10-78
8. ईमारवी-1/81/10/8		15-1-82
9. ईमारवी-1/82/37/5		25-9-82

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 1984

G.S.R. 462(E).—In pursuance of the provisions of sub-paragraph (2) of paragraph 2 of the Schedule to the Railway Board Secretariat Service Rules, 1969, the Central Government in the Ministry of Railways, in consultation with the Union Public Service Commission hereby makes the following regulations to amend the Railway Board Secretariat Service (Section Officers' Grade Departmental Competitive Examination) Regulations, 1972, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Railway Board Secretariat Service (Section Officers' Grade Departmental Competitive Examination) (Amendment) Regulations, 1984.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Railway Board Secretariat Service (Section Officers' Grade Departmental Competitive Examination) Regulations, 1972, for sub-regulation (a) of regulation 1, the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

“(a) ‘Crucial date’ means the first day of July of the year in which the examination is held”.

[No. ERV-I/84/37/I]

A. JOHRI, Secy.,
Railway Board & ex-officio Jt. Secy. to the
Govt. of India.

Foot Note :—

Principal regulations were published vide notification No. EPB-71/10/13 dated 21-6-72. Subsequently amended by :—

S. No.	Notification No.	Date
1.	ERB-I/71/10/13	23-11-72
2.	ERB-I/73/10/22	11-7-73
3.	ERB-I/71/10/13	13-8-74
4.	ERB-I/74/10/11	7-4-75
5.	ERB-I/75/10/17	21-8-76
6.	ERB-I/76/10/20	25-10-77
7.	ERB-I/78/37/2	5-10-78
8.	ERB-I/81/10/8	15-1-82
9.	ERB-I/82/37/5	25-9-82